

प्रस्तावना

12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 9 अगस्त 2006 को जम्मू एंड कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम, 2006 पारित किया गया है।

एफआरबीएम अधिनियम के तीन प्रमुख उद्देश्य:

- “वित्तीय प्रबंधन में इन्टर जेनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित” करने के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना जिसका अर्थ यह है कि उधार राशियां और कुछ नहीं है बल्कि अस्थिरता कराधान है और अपने साधनों से अधिक खर्च करने वाली सरकार भावी पीढ़ी यों पर ऋण का भार छोड़ जाती है।
- “दीर्घावधि समष्टि आर्थिक स्थिरता” सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना क्योंकि सरकार द्वारा अंधाधुंध तरीके से उधार लेने से निजी निवेश बढ़ जाता है अथवा मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है अथवा भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो जाता है जिससे समष्टि आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है।
- सरकार को “मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में वित्तीय अड़चनों” को दूर करने के लिए जिम्मेदार बनाना क्योंकि घाटे में अस्थायी वृद्धि से धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने की आरबीआई की क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि आरबीआई भी सरकार का ऋण प्रबंधक होता है।

एफआरबीएम अधिनियम में अन्तर्निहित रणनीति के तीन उपाय:

- राजस्व घाटे को पूरी तरह से समाप्त करने और वित्तीय घाटे को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सरकार की उधार राशि को सीमित करना।
 - बजट दस्तावेज के साथ कुछ विवरण पेश करके बजट योजना में मध्यावधि प्रोस्पेक्टिव लाना।
 - घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने तथा वित्तीय अनुशासन में सुधार करने में किसी प्रदर्शन कला से बचने के उद्देश्य से सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता में सुधार करना।
- वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसरण में, वित्तीय प्राधिकारी के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण सहित निम्नलिखित विवरण रखे जाने होते हैं:

मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट
मध्यावधि वित्तीय नीति संबंधी विवरण।
वित्तीय नीति की कार्यनीति संबंधी विवरण
प्रपत्र I

समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछली वर्ष के अनुमानित 1,67,206 करोड़ रुपए के जीएसडीपी की तुलना में 1,79,866 करोड़ रुपए बताया है जो 7.57% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 का जीएसडीपी 1,47,333 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2018-19 में वर्ष 2017-18 की तुलना में जीएसडीपी में 13.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय मानदंडों के संबंध में जीएसडीपी के ये आंकड़े बाजार उधार की सीमाएं निर्धारित करने के आधार होते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर के वित्त का सिंहावलोकन

अपने स्वयं के संसाधन:

कर निष्पादन

जम्मू एवं कश्मीर के कर निष्पादन की स्थिति नीचे दी गई है:-
(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राजस्व का स्रोत	1988-89	1998-99 (10 वर्ष में वृद्धि)	2008-09 (10 वर्ष में वृद्धि)	2014-15 (06 वर्ष में वृद्धि)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	कर राजस्व	138	437	2683	6334	7326	7819	9536	9826
2.	गैर-कर राजस्व	100	283	837	1978	3913	4072	4362	4188
3.	करों का हिस्सा	228	1212	1826	4472	7813	9489	11912	13990

गैर-कर निष्पादन

गैर-कर प्राप्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	985	808
2008-09	1127	837
2009-10	1294	955
2010-11	1475	1093
2011-12	1851	2002
2012-13	2765	2160
2013-14	3321	2870
2014-15	3561	1978
2015-16	3455	3913
2016-17	4024	4072
2017-18 (वास्तविक)	5389	4362
2018-19 (वास्तविक पूर्ण)	5727	4188

एफ-1

समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण।
आर्थिक निष्पादन एक नजर में

तालिका 1

चुनिंदा मैक्रो इकोनॉमिक राजकोषीय सूचकांकों में प्रवृत्तियां

		कुल लागत			परिवर्तन का प्रतिशत	
		अप्रैल - रिपोर्टिंग अवधि (करोड़ रुपए में)			अप्रैल - रिपोर्टिंग अवधि	
		2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2019-20 संशोधित अनुमान (7 माह) 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर, 2019	2019-20 बजट अनुमान (5 माह) 31 अक्टूबर से 31 मार्च 2020	2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2019-20 (संशोधित अनुमान) **
1	2	3	4		5	6
	रियल सेक्टर					
1	कारक लागत पर (जीएसडीपी)					
	(क) मौजूदा मूल्य पर	1,67,206	1,79,866		13.49	7.57
	(ख) 1999-00 मूल्य पर					
2	कृषि उत्पादन (मौजूदा मूल्य पर)					
3	औद्योगिक उत्पादन (मौजूदा मूल्य पर)					
4	तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन (मौजूदा मूल्य पर)					
	सरकारी वित्त					
1	राजस्व प्राप्तियां	51069	27738	40498	5.27	33.62
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	23816	13189	13356	11.04	11.46
2.1	स्वयं के कर राजस्व	9826	*6427	*7894	3.04	45.75
2.2	केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	13990	6762	5462	17.44	-12.62
3	गैर-कर राजस्व (3.1+3.2)	27253	14549	27142	0.70	52.98
3.1	राज्य के अपने गैर कर राजस्व	4188	1036	3432	-3.99	6.69
3.2	केन्द्रीय अंतरण	23065	13513	23710	1.60	61.38

4	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7) *	15939	6393	5794	164.55	-23.54
5	ऋण एवं अग्रिमों से वसूली	4	0	5	0	25.00
6	अन्य प्राप्तियां/गैर-ऋण राशि	2770	-31	98	- 213.76	-97.58
7	उधार एवं अन्य देयताएं	13165	6424	5691	55.69	-7.98
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	67008	34131	46292	22.87	20.02
9	कुल व्यय	67008	34131	46292	22.87	20.02
10	लेखा खाता किसका है	55895	28171	31407	36.61	6.59
11	(क) ब्याज भुगतान	5173	1737	1806	10.94	-31.51
	(ख) सब्सिडी	1205	0	0	4.42	-100.00
	(ग) मजदूरी एवं वेतन/अन्य	41998	22644	26501	41.47	17.02
	(घ) पेंशन भुगतान	7519	3790	3100	39.03	-8.37
12	पूँजीगत खाता (CAPEX)	11113	5960	14885	18.41	87.57
	जिसका कि ऋण और अग्रिम पुनर्भुगतान किया गया है।	69 2632	12 1023	87 1027	176.00 -18.82	43.48 -22.11
13	योजनागत व्यय					
14	राजस्व खाता					
15	पूँजीगत खाता					
16	ऋण और अग्रिम सहित कुल व्यय (9 + 13)	67008	34131	46292	22.87	20.02
17	राजस्व व्यय (10+14)	55895	28171	31407	36.61	6.59
18	पूँजीगत व्यय (12+15)	11113	5960	14885	-18.41	87.57
19	राजस्व अधिशेष/घाटा (+/-)	(-) 4826	-433	9091	- 163.54	-279.40
20	राजकोषीय घाटा	13303	6424	2191	378.87	-35.24
21	प्राथमिक अधिशेष/घाटा (+/-)	8130	4687	385	- 531.30	-37.61

* 7 महीनों के लिए 100 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 2019-20) और 5 महीने (बजट अनुमान 2019-20) के लिए 1000 करोड़ का अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ARM) शामिल है।

** चूंकि द्विभाजित आंकड़े गैर-तुलनीय हैं, अतः 2019-20 (आरई/बीई) के लिए प्रतिशत की गणना 7 महीने और 5 महीने के आंकड़ों को जोड़ कर की गई है।

प्रपत्र एफ-2
(कृपया नियम 3 व 4 देखें)
मध्यावधि राजकोषीय नीति का विवरण

क. राजकोषीय सूचकांक - परिवर्तनशील लक्ष्य *

	पूर्व वर्ष (वाई-2) वास्तविक पूर्व 2018-19	चालू वर्ष (वाई-1) (बजट अनुमान) 2019-20 लक्ष्य एफसी के अनुसार	चालू वर्ष (वाई-1) (संशोधित अनुमान) 2019-20 लक्ष्य एफसी के अनुसार	आगामी वर्ष (वाई) (बजट अनुमान) 2020- 21	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
					2021-22	2022- 23
1. कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष /घाटा (TRR)						
2. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा						
3. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं						

* लक्ष्य जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं

प्रपत्र घ - 1			
(नियम 7 देखें)			
चुनिंदा राजकोषीय संकेतक*			
	(प्रतिशत में)		
क्र म सं.	मद	2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2019-20 (संशोधित अनुमान)
1	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा		
2	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष		
3	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष		
4	टीआरआर के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष		
5	कुल देयताएं - जीएसडीपी अनुपात (%)		
6	कुल देयताएं - कुल राजस्व प्राप्तियां (%)		
7	कुल देयताएं - राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)		
8	राजस्व व्यय की तुलना में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)		
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय		
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का भुगतान		
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन भुगतान		
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पेंशन व्यय		
13	समेकित संवितरण के प्रतिशत के रूप में गैर-विकासपरक व्यय		
14	समेकित संवितरण के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से सकल अंतरण		
15	टीआरआर के प्रतिशत के रूप में गैर कर राजस्व		

* इस कारण को देखते हुए कि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पास केवल पाँच महीने का बजट (2019-20-बजट अनुमान) है, राजकोषीय संकेतकों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है।

प्रपत्र घ-2
(नियम 7 देखें)

क. जम्मू और कश्मीर सरकार की देयताओं के घटक						
(करोड़ रुपए में)						
श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाया गया धन		राजकोषीय वर्ष के दौरान चुकौती/मोचन		बकाया राशि (मार्च के अंत में)	
	2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2019-20 (संशोधित अनुमान)	2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2019-20 (संशोधित अनुमान)	2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2019-20 (संशोधित अनुमान)
बाजार से लिया गया उधार	6684	4478	1757	1109	30947	34316
केंद्र से ऋण	4	58	117	118	1292	1232
एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	0	0	332	349	3502	3153
वित्तीय संस्थानों / बैंकों से उधार	402	800	425	475	3703	4028
आरबीआई से डब्ल्यूएमए (निवल)	232	0	0	0	532	0
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	5288	2070	0	0	26207	28277
रिजर्व फंड / जमा (निवल)	877	40	0	0	9340	9380
अन्य देयताएं	0	0	0	0	0	0
उदय पावर बांड*	0	0	0	0	3538	3538
कुल	13487	7406	2631	2051.00	79060 (75522)	83924 (80386)

* राजकोषीय संकेतकों की गणना के लिए उदय पावर बॉन्ड के तहत लिए गए उधार को शामिल नहीं किया जाएगा।

(नियम 7 देखें)
 ख. जम्मू और कश्मीर देयताओं पर भारित औसत ब्याज दर
 (प्रतिशत में)

श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाया गया धन		बकाया राशि (मार्च के अंत तक)	
	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक पूर्व)	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक पूर्व)
बाजार से लिया गया उधार	7.61	7.61	9.10	8.86
केंद्र से ऋण	9.00	9.00	6.00	6.00
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां		0.00	8.66	10.26
वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से लिया गया उधार	6.56	6.56	8.20	7.84
आरबीआई से डब्ल्यूएमए/ ओवर ड्राफ्ट / जम्मू एवं कश्मीर बैंक से ओवर ड्राफ्ट (मार्च 2012 के अंत तक)	6.75 to 8.75	6.75 to 8.75	6.75 to 8.00	6.00 to 6.75
छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	8.70	8.70	8.25	7.83
रिजर्व निधियां/जमा राशि	6.75 to 8.75	6.75 to 8.75	6.75 to 8.00	6.00 to 6.75
अन्य देयताएं/उदय	6.66	6.66	8.51	8.51
कुल (भारित औसत ब्याज दर)			8.24	8.25

प्रपत्र घ-3
नियम 7 देखे
समेकित शोधन निधि

(करोड़ रुपए में)

पूर्व वर्ष की शुरुआत में बकाया 2018-19)	पूर्व वर्ष के दौरान परिवर्धन (2018-19)	पूर्व वर्ष के दौरान आहरण वर्ष (2018-19)	पिछले वर्ष के अंत में / चालू वर्ष की शुरुआत में बकाया	(4) / एसएल आर उधार का स्टॉक (%)	चालू वर्ष के दौरान परिवर्धन (2019-20)	चालू वर्ष के दौरान आहरण (2019-20)	चालू वर्ष के अंत में / वार्षिक वर्ष की शुरुआत में बकाया (2020-21)	(8) / एसएलआर उधार का स्टॉक (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219.55	97.05	0.00	316.60	1.02	39.27	0.00	355.87	1.04

प्रपत्र घ-4
सरकार द्वारा दी गई गारंटी
क्षेत्र-वार गारंटी का (लाख रुपए में) विवरण

क्षेत्र (ब्रैकेट के भीतर गारंटियों की संख्या)	अधिकतम राशि जिसकी गारंटी दी गई है	वर्ष 2019-20 की शुरुआत में बकाया	वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्धन	हटाए गए (वर्ष 2019-20 के दौरान लागू किए गए के अलावा)	वर्ष 2019-20 के दौरान लागू किए गए		वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					मुक्त हो गए	मुक्त नहीं हुए		प्राप्य	प्राप्त हुए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विद्युत (3)	470020	470020	-	-	-	-	470020	-	-	-
सहकारी (5)	19121 (ब्याज सहित)	22778	-	-	-	-	22778	-	-	-
सड़क एवं परिवहन (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
राज्य वित्तीय निगम (1)	700 (ब्याज सहित)	979	-	-	-	-	979	-	-	
आई एंड सी विभाग (जे एंड के सीमेंट) (2)	1887	1887	-	-	-	-	1887	-	-	-
आई एंड सी विभाग (ईडीआई)	7200	23300	-	-	-	-	23300	-	-	-
समाज कल्याण	6021	6021	-	-	-	-	6021	-	-	-

विभाग (डब्ल्यूडीसी) (17)										
समाज कल्याण विभाग (एससी/एसटी /बीसी निगम) (17)	7115	7115	-	-	-	-	7115	-	-	-
आवास एवं शहरी विकास (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला विकास समन्वय			3000				3000			
कुल (46)		532100	3000	-	-	-	535100		-	-

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को दर्शाते हैं।

प्रपत्र घ-5
(नियम 7 देखें)
बकाया जोखिम - भारत गारंटी
(करोड रुपए में)

डिफ़ॉल्ट सम्भाव्यता	जोखिम भार (प्रतिशत)	पूर्व वर्ष और चालू वर्ष की तरह बकाया राशि		पूर्व वर्ष और चालू वर्ष में जोखिम भारित बकाया गारंटी	
		पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
प्रत्यक्ष देयताएँ		-	-	-	-
भारी जोखिम		-	-	-	-
मध्यम जोखिम					
कम जोखिम		-	सभी गारंटियों पर जोखिम भार का औसत (प्रतिशत)		
अति अल्प जोखिम		-	-	-	-
कुल बकाया	-	-	-	-	-
नोट: विभिन्न जोखिम श्रेणियों के लिए जोखिम भार पूर्व-निर्दिष्ट किया गया है।					

प्रपत्र घ - 6

गारंटी मोचन निधि
(करोड रुपए में)

पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में बकाया गारंटी	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में जीआरएफ में बकाया राशि (2018-19)	चालू वर्ष (2019-20) के दौरान अनिवार्य रूप से दी जाने वाली राशि की गारंटी	चालू वर्ष (2019-20) के दौरान जीआरएफ में वृद्धि		चालू वर्ष (2019-20) के दौरान जीआरएफ से निकासी	चालू वर्ष (2019-20) के अंत में जीआरएफ में बकाया राशि
			2019-20 संशोधित अनुमान (7 माह) 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर, 2019	2019-20 बजट अनुमान (5 माह) 3 अक्टूबर से 31 मार्च, 2020		
1	2	3	4		5	6
शून्य	19.42	शून्य	58.33	41.67	0.00	*20.42

* ये आंकड़े 30 अक्टूबर, 2019 को समाप्त तथा बकाया राशि 5 महीने (31 अक्टूबर से 31 मार्च, 2020) के परिवर्धन को दर्शाते हैं।

प्रपत्र घ -7				
(नियम 7 देखें)				
परिसंपत्तियों का विवरण				
	रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत अर्थात् 2018-19 में परिसंपत्तियां	रिपोर्टिंग वर्ष अर्थात् 2018-19 के अधिग्रहित की गई परिसंपत्तियां संबंधित प्रशासन विभाग द्वारा मिलान के उपरांत समायोजन के कारण	2018-19 के दौरान अधिग्रहित परिसंपत्तियां	रिपोर्टिंग वर्ष अर्थात् 2018-19 के अंत में संपत्तियों का संचयी कुल
	अंकित मूल्य (करोड रुपए में)	अंकित मूल्य (करोड रुपए में)	अंकित मूल्य (करोड रुपए में)	अंकित मूल्य (करोड रुपए में)
अंतिम आंकड़ों की तुलना वित्त खातों से की जानी है				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
ऋण एवं अग्रिम	1660.85		64.92	1725.77
स्थानीय निकायों को ऋण	14.67		0.08	14.75
कंपनियों को ऋण	1089.24		36.08	1125.32
अन्य को ऋण	556.94		28.76	585.70
इक्विटी निवेश	653.52		35.9	689.42
शेयर				
बोनस शेयर				
भारत सरकार में दिनांकित प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों में निवेश				
14-दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल में निवेश				

अन्य वित्तीय निवेश (कृपया निर्दिष्ट करें)				
कुल	2314.37		100.82	2415.19
भौतिक परिसंपत्तियां:				
भूमि	99120.2815	28663.3281	102908.7004	230692.31
भवन - कार्यालय/रिहायशी	71980.2186	-22163.1474	10727.3376	60544.4088
सडक	33103.96	-107.757	599.087	33595.29
पुल	3114.143	0.017	78.32	3192.48
सिचाई परियोजनाएं	7386.47	-319.1	47.07	7114.44
विद्युत परियोजनाएं	5113.098	-2870.89	60.77	2302.978
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	20283.047	117.689	139.97	20540.706
मशीन एवं उपकरण	8527.8116	-613.8961	207.0493	8120.9648
कार्यालय उपकरण	1062.87544	-284.48344	385.2636	1163.6556
वाहन	2080.050992	-175.424892	143.9733	2048.5994
विविध	13.429	1002.982	39.7516	1056.1626
कुल	251785.3851*	3249.317268	115337.2928	370371.9952**

नोट:-* आंकड़ों का अभी और भी मिलान किया जाना है।

** इसमें लद्दाख कार्यविभाग से संबंधित सूचना भी शामिल है।

घ - 8
(नियम 7 देखें)

कर राजस्व जुटाए गए परन्तु प्राप्त नहीं हुए
(मुख्य कर)
(रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में)

		विवादास्पद राशि (करोड़ रुपए में)					विवाद रहित राशि (करोड़ रुपए में)					कुल योग
मुख य शीर्ष	विवरण	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 साल से कम	10 वर्ष से अधिक	कुल	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 साल से कम	10 वर्ष से अधि क	कुल	
	आय और व्यय पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पेशे, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संपत्ति और पंजीगत सेवाओं पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भू राजस्व	0	0	0	0	0	2.063	1.911	2.251	3.198	9.423	9.423	
टिकट और पंजीकरण शुल्क	0.34	0.54	59.7	3.5	64.08	1.69	0.39	0	0.12	2.2	66.28	
शहरी अचल संपत्ति कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
यात्री कर	0	0	0	0	0	0	0	0	6.38	6.38	6.38	
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
बिक्री कर / वैट	5.95	43.62	15.87	79.05	144.49	238.73	353.83	276.07	330.89	1199.52	1344.01	
केन्द्रीय बिक्री कर	27.43	14.35	17.73	0.08	59.59	1.64	2.32	0.93	0.79	5.68	65.27	
मोटर स्प्रीट और स्नेहकों पर बिक्री कर	0	0	0.01	0.08	0.09	0	0	0	2.3	2.3	2.39	
बिक्री पर	0.19	16.18	4.57	0.74	21.68	6.27	5.34	5.42	5.22	22.25	43.93	

	अधिभार											
	राज्य उत्पाद शुल्क	0	0	14.37	3.08	17.45	0	0	0	1.54	1.54	18.99
	वाहनों पर कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य कर	0	0	0	0	0	0	0	0	25.2	25.2	25.2
	टोल टैक्स	0	0	17.68	10.23	27.91	0	0	0.32	0.01	0.33	28.24
	मनोरंजन कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0.21	0.21	0.21
	कुल	33.91	74.69	129.93	96.76	335.29	250.393	363.79	284.991	375.858	1275.033	1610.32

प्रपत्र घ - 9

(नियम 7 देखें)

विविध देयताओं संबंधी विवरण - बकाया

(करोड़ रुपए में)

	बकाया राशि
प्रमुख निर्माण कार्य और संविदाएं	3442.56
भूमि अधिग्रहण प्रभारों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताएं	3020.66
कार्यों और आपूर्ति पर भुगतान न हुए बिल के संबंध में दावें	4460.447
* बकाया राशि चालू वर्ष से पहले वर्ष के लिए मार्च की अंतिम अवधि से संबंधित है।	

प्रपत्र घ - 10

(नियम 7 देखें)

कर्मचारियों की संख्या और वेतन संबंधी व्यय का विवरण *

भाग - I
सरकारी विभागों में कर्मचारी

मांग संख्या और विवरण	चालू वर्ष में कर्मचारियों की संख्या (2019-20)		वेतन पर व्यय (करोड रुपए में)				
	एनपी एसपी/सीएसएस	कुल	पूर्व वर्ष (2018-19) के लिए वास्तविक	चालू वर्ष (2019-20) के लिए बजट अनुमान	चालू वर्ष (2019-20)		अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान (2020-21)
					संशोधित अनुमान (7 माह) 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर, 2019	बजट अनुमान (5 माह) 31 अक्टूबर to 31 मार्च, 2020	
सभी मांग	4,90,940*	4,90,940*	24,150	26,000	14,444	12,346	30,573

*आंकड़े सीपीआईएस डाटा के अनुसार हैं।

भाग -II
सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारी

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट का नाम	नियंत्रक प्रशासनिक विभाग का नाम	चालू वर्ष (2019-20) के दौरान कर्मचारियों की संख्या	वेतन संबंधी व्यय			
			वास्तविक (2018-19)	बजट अनुमान (2019-20)	संशोधित अनुमान (2019-20)	बजट अनुमान (2020-21)
जेकेएचपीएमसी	बागवानी	97	9.67	11.08	9.96	7.27
जेकेआईडीसीएल	कृषि उत्पाद	72	5.32	6.03	6.03	6.63
जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम	समाज कल्याण	43	2.65	2.9	2.9	3.14
जम्मू एवं कश्मीर एससी/एसटी/पिछडा वर्ग विकास निगम		105	6.35	9.04	9.04	11.53
उप-योग (समाज कल्याण) :-		148	9	11.94	11.94	14.67
जे एंड के केवीआईबी	उद्योग एवं वाणिज्य	364	15.7464	19.9527	19.8638	20.4325
जे एंड के एसआईडीसीओ		396	26.32	32.4	28.8	32.4
जे एंड के एसआईसीओपी		408	24.26	27.5	27	28.62
जे एंड के हथकरघा विकास निगम		170	10.82	12.82	12.82	15.27

जे एंड के सीमेंट लिमिटेड		646	45.62	37.87	46.09	31.21
जे एंड के हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम		180	10.8992	10.6	10.6	9.75
जे एंड के इंडस्ट्रीज लिमिटेड		442	17.5752	15.71	21.895	23
जे एंड के मिनरल लिमिटेड		757	19.5232	21.88	24.06	27.64
उप योग (उद्योग एवं वाणिज्य) :-		3363	170.764	178.7327	191.1288	188.3225
जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम	गृह	47	6.19	6.35	6.5	6.5
जम्मू एवं कश्मीर टीडीसी निगम	पर्यटन	612	40.44	44.48	44.48	48.93
जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल निगम		149	5.66	8.37	8.37	7.83
उप योग (पर्यटन) :-		761	46.1	52.85	52.85	56.76
जे एंड के एसपीडीसी	विद्युत विभाग	2322	130.6758	274.2896	210	330
जे एंड के एसएफसी	वन	3019	95.3899	141.3369	151.5	170.75
जे एंड के एसआरटीसी	परिवहन	2151	95.3974	115.0819	107.2319	109.149
जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	वित्त	157	7.43	8.28	9.3	10.55
जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड	आवास एवं शहरी विकास	219	12.7		16.24	16.58
श्रीनगर विकास प्राधिकरण		512	28.17	29.62	29.58	31.84
जम्मू विकास प्राधिकरण		240	15.21	18.68	16.93	21.11

उप योग (आवास एवं शहरी) :-		971	56.08	48.3	62.75	69.53
जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण कार्य (आरएंडबी) विभाग	981	74.26	89.16	95.40	98.07
कुल योग :-		14089	706.2771	943.4311	914.591	1068.2015

भाग-III

क. स्थानीय निकायों के अलावा सहायता प्राप्त संस्थानों का विवरण

(करोड
रुपए में)

सहायता प्राप्त संस्थान का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	कर्मचारियों की संख्या	पूर्व वर्ष (2018-19) के वास्तविक आंकड़ें	बजट अनुमान (2019-20)	संशोधित अनुमान (2019-20)	बजट अनुमान (2020-21)
आईएमपीए	सामान्य प्रशासन विभाग	222	17.3341	16.5	18.7083	22.036
सहकारी समितियां	सहकारी विभाग (सहकारी सोसाइटियों की संख्या=1700)	1002	7	7	7	7
ईडीआई	उद्योग एवं वाणिज्य	180	12.6812	14.4725	14.4725	16.8391
एमएमडब्ल्यूआई	समाज कल्याण विभाग	29	1.27	1.24	2.38	1.36
आरयूएसए	उच्च शिक्षा विभाग	43	1.95	2.64	2.48	3.35
केयू		3022	211	210	266.22	307.65
जेयू		1823	158.94	174.9	185	203.5
आईयूएसटी		784	18	20	33.31	38.26
बीजीएसबीयू		737	14	15.5	33.93	33.6
एसएमवीडीयू		318	0.5	0.5	34.82	31.69
सीयूएस		129	4.8	4.9	7.63	8.71
एसएके		10	0.69	1.17	2.12	2.75

एसएजे		10	0.18	0.34	0.72	1.51
ओपीएसीएस		80	0.5	0.5	0.8	0.8
आईसीएससी		176	24.5	22.5	29.12	26.45
जीएमसीएनएमजे		122	8.4	8.4	16.8	12.11
वीबीडब्ल्यूसी		82	6.5	6.5	17.71	8.97
जीएमसीएमजे		12	2.24	2.24	6.78	1.65
जेकेआईएमएस		25	0.3	0.1	0	0
कुल :-		7373	452.5	470.19	637.44	681
टीडीएस (सं. 28)	पर्यटन	514	82.31	76.97	127.18	116.67
ईआरए	पीडी एंड एमडी	147	22.44	11.84	7.17	17.17
एएसी एंड एल	संस्कृति	183	24.71	28.71	28.71	28.71
जेएकेईजीए	आईटी विभाग	15	1.1065	1.16	8.2436	9.396
खेल परिषद	युवा सेवाएं, खेल एवं तकनीकी शिक्षा	540	26.14	0	27.59	33.13
एसबीओटीई		21	0.50	0.50	0.72	0.75
कुल :-		561	26.64	0.5	28.31	33.88
एसकेयूएसटी	कृषि उत्पाद	3334	358.13	336.36	418.47	410.66
कुल :-		13560	1006.1218	964.943	1298.084	1344.72

भाग-III

ख. सहायता प्राप्त संस्थानों, स्थानीय निकायों का विवरण

(करोड रुपए
में)

सहायता प्राप्त संस्थान का नाम	नियंत्रक प्रशासनिक विभाग का नाम	कर्मचारियों की संख्या	पूर्व वर्ष (2018-19) के वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान (2019-20)	संशोधित अनुमान (2019-20)	बजट अनुमान (2020-21)
श्रीनगर नगर निगम	आवास एवं शहरी विकास विभाग	3110	150.2475	175.5434	135.4806	143.7662
जम्मू नगर निगम		1709	66.0118	84.2029	82.6115	101.0784
निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर		3346	112.6	101.88	158.8701	148.2726
निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय जम्मू		2742	74.8	137.1021	131.2731	162.4545
कुल		10907	403.6593	498.7284	508.24	555.5717

नोट: सभी विवरणों में दिए गए आंकड़ों का और मिलान किया जाना है।